

REGD. OFFICE & FACTORY: KM 25/4, KALPI ROAD, RANIA, KANPUR DEHAT - 209 304 U.P. (INDIA)
Tele Office: +91-5111-240212, 240213 • Fax: +91-5111-240214
CORPORATE OFFICE: E-14, PANKI INDUSTRIAL AREA, SITE-I, KANPUR - 208 022 U.P. (INDIA)

Tel. No.: 0512-2691207, 2691208
e-mail: info@frontiersprings.co.in • Website: http://www.frontiersprings.co.in

CIN No.: L17119UP1981PLC005212

November 9, 2020

To
The BSE Limited
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Wing
Rotunda Building, PJ Towers
Dalal Street Fort, Mumbai-400001
Phone: - 022-22723121, 22722037
(Scrip Code: - 522195)

Subject: Newspaper Clippings of Unaudited Financial Result for the quarter ended September 30, 2020.

#### Dear Sir/Madam

Pursuant to Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we are hereby submitting the copies of Extract of Un-Audited Financial Results for the quarter ended September 30, 2020 published today in an English daily newspaper (Financial Express) and in a Hindi daily newspaper (Rashtriya Sahara).

Kindly take the above on record and oblige.

Thanking You
Yours Faithfully,

For Frontier Springs Limited

oning bhasin

Zompany Secretary & Compliance Officer)

Encl's: As above



**FINANCIAL EXPRESS** 

Ladakh stand-off:

another round of



(Largest Manufacturer of Springs for LHB Coaches)

Registered Office: KM 25/4, Kalpi Road, Rania, Kanpur Dehat-209304 CIN: L17119UP1981PLC005212

E-mail: c.s@frontiersprings.co.in, Website: http://www.frontiersprings.co.in Tel. No. 05111-240212-13, 0512-2691207-08, Fax No. 05111-240214 EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2020

(Rs. in lakhs, except per share data)

S. No.	Particulars	Current Quarter Ending	Year to Date Flgures Ending	Corresponding 3 months Ended in the Previous Year
	a a constant of the constant o	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019
		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)
1	Total Income from Operations	2177.86	3858.17	2522.32
2	Net Profit /(Loss) for the period before Tax	322.58	40.06	345.27
3	Net Profit / (Loss) for the period after Tax *	228.20	3898.23	246.90
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	231.47	397.67	251.08
5	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	396.32	396.32	396.32
6	Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance sheet of Previous year	-	-	-
7	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each)			
	(a) Basic (Rs.)	5.88	10.10	6.37
	(a) Diluted (Rs.)	5.88	10.10	6.37
	* Not annualised.			
NOTE	S:-			

Place: Kanpur

Date: 07.11.2020

- 1. The above Un-Audited Financial results have been reviewed and recommended by Audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 07.11.2020.
- 2. The Statutory Auditors have carried out limited review of the financial results for the quarter ended 30th September, 2020 as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 3. This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules ,2015 as amended, and prescribed under Section 133 of the Companies Act, read with the relevant rules issued thereunder.
- 4. The Previous periods figures have been regrouped/ reclassified wherever considered necessary to conform to current period's classification/ disclosure.
- 5. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the on the Stock Exchange website www.bseindia.com and also on the Company's website www.frontiersprings.co.in.
- Pursuant to the lockdown imposed by the Central & State Government authorities to contain the spread of COVID-19 out break, the operations and financial results for the half year ended September 30,2020 have been impacted. The operations gradually resumed in a phased manner with requisite precautions. Sales for the month of April,2020 were very less due to lockdown in the month of March and April 2020; the prolonged effect of which is also visible in the above financial results. We have considered relevant internal and external sources of information and its impact on the recoverability of financial & non financial assets while preapration of these financial results. The impact of assessment of COVID-19 is however a continuing process given the uncertainity associated with its nature and duration and may be different from that estimated as at the date of approval of these results. We will continue to monitor any material changes to future economic conditions. For and on behalf of the Board of Directors

Kundan Lal Bhatia (Chairman cum Managing Director) DIN:00581799

# TINNA TRADE LIMITED

Registered Office: No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030 Website:www.tinnatrade.in, E-mail:investor.ttl@tinna.in, Telephone No.:011-49518530 Fax no.:011-26804883

CIN:L51100DL2009PLC186397

		STANDALONE						CONSOLIDATED					
S. No.		Quarter Ended			Half Year Ended Year E		Year Ended	ed Quarter End		ed Half Year I		r Ended	Year Ended
	PARTICULARS	30-Sep-20	30-Jun-20	30-Sep-19	30-Sep-20	30-Sep-19	31-Mar-20	30-Sep-20	30-Jun-20	30-Sep-19	30-Sep-20	30-Sep-19	31-Mar-20
_		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	6,666.81	3,193.07	9,422.62	9,859.88	17,639.38	29,101.55	6,845.85	3,279.05	9,506.82	10,124.90	17,822.05	29,467.23
2	Net profit / (loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(141.45)	(104.37)	(220.38)	(245.82)	(217.73)	(466.03)	(125.11)	(79.45)	(217.02)	(204.56)	(197.38)	(426.99)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(141.45)	(104.37)	(220.38)	(245.82)	(217.73)	(466.03)	(125.11)	(79.45)	(217.02)	(204.56)	(197.38)	(426.99)
4	Net profit / (loss) for the period after Tax(After Exceptional and / or Extra ordinary Items)	(105.96)	(77.37)	(226.18)	(183.33)	(225.81)	(369.76)	(89.63)	(52.63)	(187.02)	(142.26)	(151.40)	(257.09)
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after Tax)	(105.81)	(77.75)	(226.14)	(183.56)	(221.67)	(374.11)	(89.88)	(53.18)	(186.92)	(143.07)	(147.06)	(263.35)
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48
7	Other Equity						2,106.04			. 1			1,951.65
8	Earning Per Share(face value of Rs 10/- each share) (for continuing and discontinued operation)												
	(a)Basic	(1.24)	(0.90)	(2.64)	(2.14)	(2.63)	(4.32)	(1.13)	(0.76)	(2.41)	(1.89)	(2.19)	(3.64)
	(b)Diluted	(1.24)	(0.90)	(2.64)	(2.14)	(2.63)	(4.32)	(1.13)	(0.76)	(2.41)	(1.89)	(2.19)	(3.64)

Place: New Delhi

Date: 07th Nov. 2020

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full

format of the Quarterly/Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites ie www.bseindia.com and on the company's website www.tinnatrade.in 2 The above results have been reviewed by the Audit Committee on 07th Nov, 2020 and approved by the Board of Directors at its meeting held on 07th Nov, 2020.

**ABM INTERNATIONAL LIMITED** 

FOR TINNA TRADE LIMITED Gaurav Sekhri Chairman & Managing Director

Extract of Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2020

Particulars	Ouerte	r andad	Half Vac	r Endad	Year Ended	Ougston	andad	Holf Voor	Endad	Voor Ended
Particulars	Quarter ended		Half Year Ended		rear Ended	Quarter ended		Half Year Ended		Year Ended
	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	31.03.2020	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	31.03.2020
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	Stand	dalone	Stand	alone	Standalone	Consol	idated	Consol	dated	Consolidated
Total Revenue	1804.19	897.58	3815.42	3709.84	9857.27	1804.190	897.58	3815.42	3709.84	9857.27
Profit / (Loss) before Exceptional and extraordinary										
items and tax	147.41	(1.13)	67.86	(16.97)	(262.07)	147.41	(1.13)	67.86	(16.97)	(262.07)
Share of profit/(loss) of associates	-	-		-	-	-0.95	(0.72)	-1.16	(0.72)	(2.33)
Profit / (Loss) before extraordinary items and tax	147.41	(1.13)	67.86	(16.97)	(262.07)	146.46	(1.85)	66.70	(17.69)	(264.40)
Profit / (Loss) bebore tax	147.41	(1.13)	67.86	(16.97)	(262.07)	146.46	(1.85)	66.70	(17.69)	(480.44)
Profit / (Loss) for the period from continuing operations	147.41	(1.13)	67.86	(16.97)	(478.11)	146.46	(1.85)	66.70	(17.69)	(480.44)
Items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-	-			-		-	-
Total Other Comprehensive Income/(Loss) for the period	_	-		-	(8.75)		-		-	-
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period	147.41	(1.13)	67.86	(16.97)	(486.86)	146.46	(1.85)	66.70	(17.69)	, ,
Paid-up equity share capital	1176.000	1,176.00	1176.00	1,176.00	1,176.00	1176.00	1,176.00	1176.00	1,176.00	1,176.00
Other Equity										
Earning Per equity share (of Rs. 10/- each):										
(1) Basic (Rs. Per Share)	1.25	(0.01)	0.58	(0.14)	(4.14)	1.25	(0.02)	0.57	(0.15)	. ,
(2) Diluted (Rs. Per Share)	1.25	(0.01)	0.58	(0.14)	(4.14)	1.25	(0.02)	0.57	(0.15)	(4.16)

Date:-07-11-2020

Place:- New Delhi

The above is an exract of detailed format of Quarterely and Half Yearly Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015

ABM INTERNATIONAL LIMITED

# IOB seeks ₹1,000-cr capital support

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, November 8

THE INDIAN OVERSEAS Bank (IOB) has sought capital support of about ₹1,000 crore from the government to

**CIN:** L45202DL1985PLC019746

Regd. Office: 23, II Floor, North West Avenue, Club Road, West Punjabi Bagh,

New Delhi-110026

**Tel. No.:** 011-25223461, 25221200

E-mail: panafic.industrials@gmail.com

Website: www.panaficindustrialsltd.com

This is to inform you that Board Meeting of the

Company has been scheduled to be held or

Friday, 13th November, 2020 at the Registered

Office of the Company at 23, II Floor, North

West Avenue, Club Road, West Punjabi Bagh

New Delhi-110026 at 05:00 PM respectively to

consider and approve unaudited Financia

Results of the Company for the guarter and

half year ended 30th September, 2020 and

Further to your notice, trading window for

dealing in securities of the Company will

remain closed for 'Designated Person' and

person having access to the unpublished price

sensitive information of the Company till the

expiry of 48 hours after the unaudited Financia

Results for the quarter and half year ended 30

The aforesaid notice is also available on the

website of the Compan

Form No. INC-25A

Advertisement to be published in the

newspaper for Conversion of Public

Company into a Private Company

Before the Regional Director, Ministry of

Corporate Affairs, Northern Region,

New Delhi

In the matter of the Section 14 of Companies Act 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND In the matter of

CLUBSEVEN CONSULTANTS LIMITED

(CIN:U74140HR2003PLC050424)

having its Registered Office at

B-253, NEHRU GROUND, N.I.T. FARIDABAD, HARYANA-121001

NOTICE is hereby given to the General Public

that the company is intending to make an

application to the Central Government under

section 14 of the Companies Act, 2013 read

with aforesaid rules and is desirous of

Converting itself into a Private Limited company in terms of the special resolution passed at the

Extra Ordinary General Meeting held on

Wednesday, 14th October, 2020 to enable the

Any person whose interest is likely to be

affected by the proposed change of status of

the company, may deliver or cause to be

delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the

nature of his / her interest and grounds of

opposition to the concerned Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt.

Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO

Complex, New Delhi-110003 within Fourteen

days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its

Registered Office address mentioned below :

CLUBSEVEN CONSULTANTS LIMITED

For & on behalf of Applican

**RAKESH GUPTA** 

DIN: 07648733

B-253, NEHRU GROUND, N.I.T, FARIDABAD, HARYANA-121001

Date: 09.11.2020

Place Faridabad

company to give effect for such conversion.

For Panafic Industrials Limited

Sarita Gupta

DIN: 00113099

Managing Director

th September, 2020 being declared.

www.panaficindustrialsltd.com

Kindly take the same into record.

Yours Faithfully

Date: 07/11/2020

Place: Delhi

other matters as per the agenda items.

create buffer for any exigency, a top official said. Managing director PP Sengupta said, "We want our profit to strengthen our capital ... As a prudent measure, we have sought some capital support, let us see how much we get."

# C>lassifieds

## **BUSINESS OFFERS**

**Let's** celebrate the festival with Happiness, Safety & Blessing HAPPY DIWALI to all wishes from PRANAZ FINANCE www.pranazfinance.com Contact: 9820366652

0050170611-1

A technology company specializing in reward automation seeks a business partner to scale up its operations. Contact: 893 926 5030 /support@comp360.biz for details.

0050171320-1

Distinctive Properties and Leasing Limited CIN: L70101DL1984PLC018194 Registered Office: Flat No. 13, Stilt Floor Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi- 110019, Website: www.distinctiveproperties.co.in Email id: distinctivepro1984@gmail.com Phone: 011 - 4367 5505

Notice is hereby given in pursuance to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 that a meeting of the Board o Directors of the Company is Rescheduled to be held on Saturday, November 14, 2020, to consider inter alia, the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended or 30th September, 2020.

The said intimation is also available on Company's Website at www.distinctiveproperties.co.in and on the website of Stock Exchange at www.msei.in where the shares of the Company are listed.

For Distinctive Properties and

Leasing Limited

Arun Bahuguna Place: New Delhi Whole Time Director Date: 08.11.2020 DIN: 00471958

military talks likely PRESS TRUST OF INDIA

# New Delhi, November 8

INDIAAND CHINA are likely to hold another round of military talks this week to discuss specific proposals for a possible breakthrough in the longnegotiated disengagement process in eastern Ladakh where their two armies are locked in an over six-month border standoff, authoritative sources said on Sunday.

The eighth round of Corps Commander-level talks on Friday had broadly discussed disengagement of troops from specific friction points and both sides on disengagement would like to take along the LAC forward the "constructive"dialogue

to the next round with detailed deliberations, they said. "Another round of talks is likely this week to discuss the proposals," said a source. The next round of talks will also be at the level of Corps Commanders.

In a joint statement released earlier in the day, the Indian Army and the Chinese People's Liberation Army(PLA) described the Friday talks as candid, in-depth and construcagreed to earnestly implement the important consensus reached by the leaders of the two countries and ensure that

the frontline troops exercise restraint and avoid misunderstanding and miscalculation.

The statement released both in Beijing and New Delhi said both sides agreed to maintain dialogue and communication through military and diplomatic channels, and take forward the discussions for the settlement of outstanding issues.

The talks were held in Chushul on the Indian side of the Line of Actual Control (LAC)

in eastern Ladakh. They The joint lasted for nearly statement said the 11 hours. two sides had a The joint candid, in-depth statement said and constructive the two sides had exchange of views a candid, in-

> structive exchange of views on disengagement along the LAC in the western sector of

depth and con-

India-China border areas. Government sources said the Indian Army strongly insisted on early disengagement of troops by China from all the friction points in east-

ern Ladakh. The Indian delegation at the eighth round of military talks was led by Lt Gen PGK Menon, the newly-appointed Commander of the Leh-based tive. The statement said it was 14 Corps. Naveen Srivastava, Joint Secretary (East Asia) in the Ministry of External Affairs, was also part of the Indian delegation.

#### E-AUCTION SALE NOTICE FOR ASSETS OF EXCEL GLASSES LIMITED (in Liquidation) Registered Office: UdayaNagar, Pathirapally, Allapuzha, P. O. Alleppey, Kollam - 688521, Kerala CIN: L26109KL1970PLC002289

(Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

The undersigned Liquidator of Excel Glasses Limited (In Liquidation) ('Corporate Debtor'), appointed by the Hon'ble NCLT, Kochi, vide order dated 21.10.2019 ntends to sell the following movable and immovable properties forming part of the Liquidation Estate of the Corporate Debtor through e-auction on "as is where is basis", "as is what is basis", "whatever there is basis" and "without recourse basis". Sale will be done by the undersigned through E-Auction service provider C1 India Private Limited (website: https://www.bankeauctions.com).

24th November, 2020, 3 PM to 5 PM Date and Time of E-auction

Last	Date and Time for submission of KYC and EMD	20 <sup>th</sup> November, 2020 by 5 PM		
Date	and Time for Inspection	9 <sup>th</sup> November, 2020 to 20 <sup>th</sup> November, 2020 (with one Mr. Sudhanshu Pandey Mob. 9821916190) 11:00 am		
Sr. No.	<b>Description (Assets)</b> (Bids are invited for each of the blocks sepa	urately)	Reserve Price (Rs. in lakhs)	Reserve Pric
Block 1	Factory Land and Building located at Salem Kanyakuma Total Land Area 69694 sq mtrs. and additionally a portior	ri Highway (NH-66), Dist. Alappuzha, State - Kerala 688 521. n of adjoining land at the factory of approx 1841 sq. Mts	6,211.08	621.10
Block 2	Land opposite to Infocity Campus, Pallipuram Villag Area 1.22 acres 4937 sq mts	ge, Cherthala Taluk, Alappuzha, Kerala 688541 Land	172.53	17.25
Block 3	Land opposite to KSIDC Industrial Growth Centre, Kerala688541 -Land area1.25 acres-5059 sq mt	Pallipuram Village, Cherthala Taluk, Alappuzha,	176.58	17.65
Block 4	Plant and Machinery Embedded in the Factory - De	etails as per Sale Memorandum	1359.90	135.99
Intoro	tod Diddowlo may refer to detailed towns and conditions an	od tandar dagumanta (Cala Managanduna) thraugh such sitaguath	a.//sasassassassassassassassassassassassas	leanuations and

nterested Bidder/s may refer to detailed terms and conditions and tender documents (Sale Memorandum) through websites: https://www.bankeauctions.com http://www.excelglasses.com. They can contact through Email: support@bankeauctions.com, or write to the undersigned at ip.ravinchaturvedi@gmail.com contact numbers: Mr. Jay Singh +91-7738866326 or Mr. Hareesh Gowda +91-9594597555, or can contact Mr. Sudhanshu Pandey Mob. No. +91-9821916190. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s)/bids or adjourn/postpone/cancel the e-Auction or withdraw any property or portion thereo from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof. Any revision in the sale notice will be uploaded on the Excel Glasses Limiter website (http://www.excelglasses.com/). It is requested to all the bidders to kindly visit the website regularly S/d-Ravindra Chaturvedi

Place: Mumbai Date: 9<sup>th</sup> November, 2020

Liquidator of Excel Glasses Limited (In Liquidation) IBBI Regn. No. IBBI/IPA-001/IP-P00792/2017-2018/11359 Address: 31-E, BKC Centre, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (W), Mumbai 400 053

केनरा बैंक Canara Bank 📣

## POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Where as, the undersigned being the authorised officer of the Canara Bank under, the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of Powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security respective interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on the property/ surety to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the receipt of the said notice. The respective Borrower having failed to repay the amount, notice in hereby given to the Borrower and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 & 9 of the said rule. The Borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for the amount mentioned helps also interest thereon along with other expenses

Sr. No.		Name of Borrowers	Description Of The Immovable Property	Date of Demand Notice & Amount as per Notice	Date of Symbolic Possession & Place	
1.	Lakhimpur Branch Distt. Lakhimpur Kheri	Om Tiwari (Proprietor & Mortgagor), Smt. Prema Tiwari (Guarantor & Mortgagor), Sri Shashi Kant Tiwari (Guarantor & Mortgagor) Sri Shomil Tiwari (Guarantor & Mortgagor) Smt. Aparan Awasthi (Guarantor & Mortgagor) Smt. Arunima Awasthi (Guarantor & Mortgagor) Smt. Nidhi Bajpai (Guarantor & Mortgagor) Smt. Shardha	Residential Building being House no1009, Moh Shiv Colony City & Tehsil Lakhimpur Pargana & Dist. – Kheri in the name of :-1, Smt. Prema Tiwari W/o :- Late Sri Ram Mohan Tiwari, 2, Sri Hari Om Tiwari S/o :- Late Sri Ram Mohan Tiwari, 3, Sri Shashi Kant Tiwari S/o :- late Sri Ram Mohan Tiwari , 4, Sri Shomil Tiwari S/o :- Late Sri Ram Mohan Tiwari, 5, Smt. Aparan Awasthi D/o : Late Sri Ram Mohan Tiwari, 6, Smt. Arunima Awasthi D/o : Late Sri Ram Mohan Tiwari, 7, Smt. Nidhi Bajpai D/o :- Late Sri Ram Mohan Tiwari, 8 Smt. Shardha Shukla D/o ; Late Shri Ram Mohan Tiwari. Area 170.44 Sqmt. Bounded by: North: Plot of Others, South: Plot of Shri Devendra Kumar Verma, East: 12 Ft wide Road, West: Plot of Ramjan Ali.	Rs. 1317213.46 + interest & Other expenses from 29.07.2020	06.11.2020 Lakhimpur	
2.	Lakhimpur Branch Distt. Lakhimpur Kheri	Hari Om Tiwari (Proprietor & Mortgagor), Smt. Durgesh Tiwari (Guarantor & Mortgagor), Smt. Sunita Mishra	Residential Building being House having house no308/290, Moh Naurangabad City –Lakhimpur Road Tehsil; -Lakhimpur Pargana & Dist. – Kheri in the name of Smt. Durgesh Kumari W/o –Hariom Tiwari :- Area 205.585 Sqmt. Bounded by: North: House of Virendra Srivastav and Dinesh Srivastav, South: House oh Anjali, East: Plot others and House of Umesh Tiwari, West: 10'6"ft wide Road	Rs. 1688850.18 + interest & Other expenses from 29.07.2020	06.11.2020 Lakhimpur	

Date - 07.11.2020

Authorized Officer

## SOMI CONVEYOR BELTINGS LTD Regd. Office: 4F-15, 'Oliver House', New Power House Road, Jodhpur- 342003

Phone: +91-291-2765400 to 09 | CIN: L25192RJ2000PLC016480 E-mail: info@ombhansali.com | Website: www.somiinvestor.com

STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER ENDED SEPTEMBER 30TH, 2020

	(R								
S. N.	Particulars	Quarter ended September 30, 2020	Year to date Figures September 30, 2020	Corresponding Quarter ended September 30, 201					
1.	Total Income from Operations	644.83	1074.16	1563.60					
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	22,31	45.61	52.56					
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	22.31	45.61	52.56					
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	13.01	30.27	34.66					
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	13.01	30.27	35.83					
6.	Equity Share Capital	1177.97	1177.97	1177.97					
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	4359.42	4359.42	4029.81					
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -  1. Basic:	0.11	0.26	0.29					

Note: The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchanges websites, www.bseindia.com, www.nseindia.com and company website www.somiinvestor.com.

# - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/ AS Rules, whichever is applicable. OM PRAKASH BHANSALI Date: 07/11/2020 Managing Director Place: Jodhpur

Lucknow

financialexp.er



CIN NO. L51909DL1983PLC015585 Regd Office: 10/60, Ind Area, Kirti Nagar, New Delhi-110015

Ph: 011-41426055 E-mail vkgandhi@abmintl.in Website www.abmintl.in

Rs. In Lakh												
Particulars	Quarte	r ended	Half Yea	Half Year Ended		Quarter ended		Half Year Ended		Year Ended		
	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	31.03.2020	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	31.03.2020		
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
	Stand	lalone	Stand	alone	Standalone	Consolidated		Consolidated		Consolidated		
Total Revenue	1804.19	897.58	3815.42	3709.84	9857.27	1804.190	897.58	3815.42	3709.84	9857.27		
Profit / (Loss) before Exceptional and extraordinary												
items and tax	147.41	(1.13)	67.86	(16.97)	(262.07)	147.41	(1.13)	67.86	(16.97)	(262.07)		
Share of profit/(loss) of associates	-	-		-	-	-0.95	(0.72)	-1.16	(0.72)	(2.33)		
Profit / (Loss) before extraordinary items and tax	147.41	(1.13)	67.86	(16.97)	(262.07)	146.46	(1.85)	66.70	(17.69)	(264.40)		
Profit / (Loss) bebore tax	147.41	(1.13)	67.86	(16.97)	(262.07)	146.46	(1.85)	66.70	(17.69)	(480.44)		
Profit / (Loss) for the period from continuing operations	147.41	(1.13)	67.86	(16.97)	(478.11)	146.46	(1.85)	66.70	(17.69)	(480.44)		
Items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-	-			-		-	-		
Total Other Comprehensive Income/(Loss) for the period	_	-		-	(8.75)		-		-	-		
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period	147.41	(1.13)	67.86	(16.97)	(486.86)	146.46	(1.85)	66.70	(17.69)	(489.19)		
Paid-up equity share capital	1176.000	1,176.00	1176.00	1,176.00	1,176.00	1176.00	1,176.00	1176.00	1,176.00	1,176.00		
Other Equity												
Earning Per equity share (of Rs. 10/- each):												
(1) Basic (Rs. Per Share)	1.25	(0.01)	0.58	(0.14)	(4.14)	1.25	(0.02)	0.57	(0.15)			
(2) Diluted (Rs. Per Share)	1.25	(0.01)	0.58	(0.14)	(4.14)	1.25	(0.02)	0.57	(0.15)	(4.16)		
Noto:		-			-	30	-					

The full format of Quarterly and Half Yearly Finanacial Result are available on the Stock Exchange website www.nseindia.com and the company's website www.abmintl.in for and on behalf of the Board of Directors

(Virender Kumar Gandhi) Chairman and Managing Director DIN-00244762

### महानगर कावात्र

संक्षिप्त खबर

बैंक ऑफीसर ने की बैंकिंग विकास पर चर्चा

कानपुर । पंजाब नेशनल बैंक आफीसर क्षानपुर । पत्राव नशनल वक आफास एसोसिएशन नगर इकाई यूनिट द्वारा रविवार को स्वरूप नगर में मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें बैंक कर्मचारी व आफीसर्स के बीच मधुर संबंध बनाने के साथ ही बैंकिंग विकास पर चर्चा हुई। बैंक के उप मण्डल प्रमुख सुधीर भास्कर ने कहा कि कोरोना काल के दौरान कर्मचारी और अधिकारियों ने योद्धा बनकर काम किया है। कई कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में बैंक कर्मचारी और अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि वे बैंक से जुड़ी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रसार करें ताकि लोगों को ऋण सविधा मिल सके। यहां अनिल मिश्रा राजकुमार, आरके बाजपेई, ओम सरन, प्रदीप अग्रवाल, अश्वनी उपाध्याय थे।

# कारोबारी के घर आढ लाख की चोरी

बिधनू के गोपाल नगर में शातिर चोरों ने अंजाम दी वारदात

बेटे संग माल की डिलीवरी देने

■ सहारा न्यूज ब्यूरो कानपुर।

विधनू थाना क्षेत्र में सक्रिय शातिर चोरों ने एक मोमवत्ती कारोबारी के घर ताला तोड़कर आठ लाख की सम्पत्ति पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गये। घटना के समय कारोबारी बेटे के साथ उरई मोमबनी की डिलीवरी देने के क साथ उरइ नामयता या गिरायरा युग या लिए गये थे। रविवार रात जब वह घर लौटे तो घटना की जानकारी हुई। पीड़ित ने थाने में

तहरार दा है। बिधनू के गोपाल नगर निवासी वेद प्रकाश सक्सेना मोमवत्ती कारोबारी हैं। उन्होंने घर के निचली मंजिल पर मोमवत्ती का कारखाना बना रखा है, जबकि पहली मंजिल



पर वह पत्नी साधना और बेटे सचिन के साथ रहते हैं। शनिवार को उनकी पत्नी साधना मां की तबियत खराब होने के कारण अपने का (वायत खराब होने के नारण अपने मायके फतेहपुर गयी थीं, जबिक सुबह ही वेद प्रकाश बेटे सचिन के साथ मोमबर्गी की डिलीवरी देने के लिए उरई गये हुए थे। रविवार रात वेद प्रकाश और सचिन घर लौटे। मेनगेट का ताला खोलकर जब वह पहली मंजिल स्थित कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गये।

अंदर सामान विखरा पड़ा था। कमरे में रखी आलमारी और उसके लॉकर का ताला भी टटा पडा था। लॉकर में रखे आत लाख रूपये के

लोकर म रख आठ लोख रुपय क जेवरात और अस्सी हजार रुपया गायव था। वेद प्रकाश ने बताया कि चोर बाहर की बाऊंड्री के सहारे पहली मंजिल पर पहुंचे और कमरों के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हो गये होंगे। पीडित कारोबारी ने मामले की जानकारी क्षरा नाकुष प्राराजार न नानरा या जानकार विधनू थाने में दी। सूचना पर पुलिस चौकी वे सिपाही मौके पर पहुंचे और खानापूर्ति करवे लौट गये। बिधनू पुलिस ने बताया कि कारोबारी द्वारा तहरीर देने पर उसी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी कारोबारी ने बताया कि क्षेत्र में चोरों का अच्छा खासा आतंक है। वह आये दिन किसी न किसी के घर को अपना निशाना बनाते रहते हैं बार प्राप्त ५ जनान आर प्राप्त पर पर्याटा हम तो ताला खोलाकर जब वह पहली लिस्पत कमर्भ में पहुँचे तो बहां का नजारा केर उनके होश उड़ गये। दोनों कमरों के ताले टूटे पड़े थे और पुलिस कमाँ पिकेट से नदारद रहते हैं।

#### ट्रक की टक्कर से भट्टा संचालक की मौत

कानपर (एसएनबी) । नौबस्ता थाना क्षेत्र में रविवार रात तेज कानपुर (एसएनजा) । नावस्या यात्रा कर न राज्यार राता क रपतार ट्रक द्वारा बाइक में टक्कर मार देने से बाइक सवार भड़ा संचालक की मौके पर मौत हो गयी, जबकि उसका मुनीम गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने परिजनों को शांत कराया। अस्पताल में भर्ती मुनीम की

पुलस्त न पाराना का शात कराया। अस्पताल म मता मुनाम का हालत भी गंभीर बतायी जा रही है। मूलकर से घाटमपुर के पलास गांव निवासी धर्मेन्द्र तिवारी (52) भट्टा संचालक थे। वह आवास विकास हंसपुरम में परिवार के साथ रहते थे। रविवार रात को वह बाइक से भट्टे के मुनीम दिनेश तियार के साथ घरेलू सामान खरीदने के लिए बाजार जाने को निकले थे। वह जब आवास विकास सब्जी मंडी मोड़ पर पहुंचे तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि धर्मेन्द्र और दिनेश बाइक भार दा। टक्कर इतना भाषण था कि यमन्द्र आर (दनश शहक के साथ कार्षों हुए तक सड़क पर पाइजे तथा गेया हात्रका ध मौके पर ही भीत हो गयी, जबकि दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच सूचना पर इलाकाई लोग और धर्मेंद्र के परिवत्न मौके पर एहुंच गंऔर होगाण करने लगे। सूचना पर नीक्स्ता थाने का फोर्स मीके पर एहुंचा और सुचना पर माबस्ता यान का काल माक पर पहुचा आर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। नौबस्ता पुलिस ने बताया कि घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला है। गाड़ी नम्बर के आधार पर ट्रक मालिक और चालक का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही चालक को गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

## भाजपाइयों ने राज्य सदस्य हवेलकर का स्वागत किया

कानपुर (एसएनबी)। भाजपा के कार्यकर्ता रवि शंकर हवेलकर को मनोनीत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति ,समाज कल्याण विभाग. उत्तर प्रदेश का करपाण पिमान, उत्तर प्रदश्त का सदस्य मनोनीत होने पर रविवार को पार्टी कार्यालय नवीन मार्केट में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों

ने स्वागत किया। स्वागत समारोह में जिला अध्यक्ष सुनील बजाज ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साधारण से कार्यकर्ता रवि शंकर हवेलकर को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रधानमत्रा आदश ग्राम योजना का राज्य सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया है। इससे जनता में संदेश जाता है कि शोषित वंचित एवं पिछड़ों को पीएम एवं सीएम योगी के द्वारा दी जा रही जन



शिक्षक पार्क में रवि शंकर हवेलकर का

कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कल्पाणकारा याजनाजा का लाम जन जन तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अभिवादन करते हुए श्री हवेलकर ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी हमको सौंपा है हम उस जिम्मेदारी को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। स्वागत कार्यक्रम में जिला मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी ,डॉ. जन्मेजय सिंह, राजू शर्मा, वीरेश त्रिपाठी, संतोष शुक्ला, सीएल बघेल, रमेश वर्मा आदि थे।

## महिलाओं ने रखा अहोई व्रत

(एसएनबी)

कानपुर (एसएनबी)। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर सुहागिनों ने पुत्र प्रापित, पुत्र की रक्षा, पुत्र की दीर्घायु आदि के लिये आज अहोई माता यानी पार्वतीजी का व्रत जार्थ जिल्हा निर्माण निर्माण के प्रकार रखकर पूजन कर किया। महिलायें इस दिन संतान की दीर्घायु, रक्षा के लिये माता का पूजन करती हैं। जिन महिलाओं को संतान नहीं होती उनके लिये यह व्रत विशेष है, गर्भ में ही संतान नष्ट हो जाती हो, उनके लिये व्रत शुभकारी होता है। इस दिन विशेष प्रयोग कर नुमनारा होता है। इस दिना प्यस्त प्रयान पर तंतान की उन्नति और कल्याण भी होता है। i उपवास आयुकारक और सौभाग्यकारक

होता है। वत रखने वाली महिलाओं ने रविवार प्रत रखन पाला महलाजा न राजपार सुबह स्नान आदि के बाद अहोई माता की तस्वीर दीवार में बनाकर पूजा कर संकल्प लिया। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन आरंभ किया। पूजा सामग्री में चांदी या सफेद धातु की अहोई, चांदी या मोती की माता, जय से भरा हुआ कलश, दूध भात, हलवा और फूल, दीप आदि रख कर माता का पूजन किया। पूजन के दौरान गेहूं के दाने और दक्षिणा अर्पित कर अहोई माता की कथा सुन् कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। सुन कर माता का आशावाद प्राप्त ।कथा। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन प्रहण किया। इस दौरान पूजन में प्रयोग की गयी मोती या चांदी की माला को दीपावली के गया माता या चादा को माला का दापावला क दिन निकालें और जल से शुद्धकर सुरक्षित रख दें। संतान की शिक्षा, करियर, रोजगार में आ रही वाघा अहोई माता के पूजन आदि से दूर हो जायेगी। संतान के वैवाहिक, पारिवारिक जीवन में आ रही बाघा में अहोई माता को गुड़ का भोग लगायें और चांदी का आभूषण अर्पित करें। वहीं माता को चढ़ाया हुआ गुड़ संतान को खिलाने और अपने हाथों से चेन पहनाकर सिर पर हाथ रखकर संतान को आशीर्वाद दें. संतान की सभी बाधायें दर हो जायेंगी।

#### शहर में पांच ओवरब्रिजों की मांग सीएम से

कानपुर (एसएनबी) 1 कोरोना काल के वीरान भाजपा विधायक मैथानी ने शहर के विकास के लिए पांच ओवर ब्रिंज मुख्यमंत्री से मांगे ये, लेकिन कोरोना काल के कारण उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी थी। रविवार को श्री मैथानी ने मुख्यमंत्री को स्मरण पत्र भेजते हुए याद दिलाने का प्रयास किया है कि पिछले पत्र को ध्यान रखते हुए ओवर ब्रिजों की अनमति प्रदान करें। जिससे शहर की जनता को जाम से मक्ति मिल सके

## प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रहार के विरोध में किया प्रदर्शन



सनिगवां रोड अन्ना चौराहे पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा कथित प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रहार के विरोध में पूर्व सैनिकों व क्षेत्रीय लोगों ने किया s

कि इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया

कानपुर (पुरस्पानवी)। महरापुर सरकार हारा प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रहार के विरोध में पर प्रहार लोकतंत्र के वीधे स्तम्भ को समाज पूर्व सैनिको व केवीय लोगों ने सहाप्रपुर सिनावी होड अन्य पार्टी पर उत्तरकार करने की साविश्व है। महरापुर प्रहार्सन किया। उन्होंने कहा प्रोतीलन करने की को देश की प्रपुतादी जना सरकार के इस कुल्सित प्रयास को देश की राष्ट्रवादी जनता कभी सफल नहीं होने देगी। दी चेतातनी प्रदर्शन में समिति के उपाध्यक्ष

अद्भाग म सामात के उपाण्यक्ष प्रस्के दीक्षित, पूर्व सैनिक राज्य साहु, सुरेश कुमार शुक्ला ने महाराष्ट्र सरकार को दुवे, दिनेश दीक्षित आदि थे।

## लोन देने का झांसा देकर

#### व्यापारी से ठगे 5.66 लाख ग्वालटोली क्षेत्र में साइबर ठ गों

महिला समेत पांच लोगों के

ने बनाया निशाना

खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

■ सहारा न्यूज ब्यूरो कानपर।

कानपुर (एसएनबीन)। ग्वालटोली थाना क्षेत्र में साइबर टगों ने एक कारोबारी को लोन देने म साइबर उगा न एक काराबारा का लान दन के नाम पर उससे 5.66 लाख रुपये की उगी कर ली। साइबर ठगों ने जब उससे और रुपये मांगे तो कारोबारी को ठगे जाने का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने ग्वालटोली थाने में एक महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया है। पुलिस मामले

की छानबीन कर रही है। ग्वालटोली मकबरा . निवासी मोहम्मद

अकरम कारोबारी हैं। खालटोली इंस्पेक्टर केके दीक्षित ने बताया कि कुछ दिन पूर्व अकरम के पास रिया शर्मा नाम की एक् महिला का फोन आया। महिला ने खुद को एक बैंक का अधिकारी बताया और कहा कि आपका क्रेडिट अच्छा है, आपको आठ लाख तीस हजार रुपये का लोन मिल सकता

है। अकरम न काई घ्रस्तियस्य नहीं घ्रखाया, लेकिन उसके बाद कारोबारी के पास प्रवीण कुमार, सौरभ, मोहित भारद्वाज और अनिल कुमार नाम के आदमी का भी फोन आया। कई फोन आने के बाद अकरम ने लोन लेने के लिए हामी भर दी। इसके बाद शातिरों ने लोन पास कराने की पोसेसिंग फीस के ना ान पास करोन का प्रांसासग फास के नाम पर एक के बाद एक करके उनसे पांच लाख 66 हजार रुपये ट्रांजेक्शन करा लिये। इसके बाद भी शांतिरों ने जब उनसे रकम मांगी तो अकरम को खुद के ठगे जाने का एहसास हुआ। उन्होंने ग्वालटोली थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी हैं।

है। अकरम ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी

#### लोहे की रॉड से महिला को किया लहुलुहान

शिवल्ली (एसएनबी)। शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए पुलिस वे बाया कि बीते 7 नवंबर की दोगहर करीब दो बचे बहु अपने घर के अंदर छोटेखोटे बच्चों के साथ सो रही बीत गो उसका देख जीक पुलिस में नीकरी करता ही। वह वर्तमान समय में अंदोबाद में तैनात है। वह चुनचाग उसके घर के अंदर पुस आया और उसके साथ छेड़खानी करते हुए दुक्कमें करने का प्रयास करने लगा। जब उसने और माबाब तो वह घर से बाहर निकल गया तभी औरागुल सुनकर उसके चीत एवं अन्य लोग मीके पर आ गए जब उसने वह बाब सबको बाहरी आरोपी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ और वह गालीगलौज करने लगा। जब उसने गाली देने का विरोध किया तो दो देवरों ने एवं सास उसके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान देवर ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया।आरोप है कि इसी दौरान घर के अंदर रखें 50 हजार रुपए नगद एवं जेवर भी उठा लिए है। शिवली कोतवाल ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

## देशव्यापी हड़ताल की सफलता के लिए साझा मंच का सम्मेलन

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

कानपुर।

कानपुर। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को होने वाली देशव्यापी हडताल को सफल बनाने वाला प्राच्याचा इड्डाल का स्कल बनान के लिए रविवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं औद्योगिक फेडरेशनों का साझा मंच ने राम आसरे भवन में सम्मेलन किया। यहां वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की पंजीपरस्त नीतियों के चलते देश में नुजाबरस्त नातियां के चलते देशे में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। किसान तबाही की ओर बढ़ रहा है। देश की अर्थवस्था की रीढ़ समझे जाने वाले



कालपी रोड स्थित राम आसरे भवन में केंद्रीय ट्रेड यूनियन व औद्योगिक फेडरेशनों के साझा मंच सम्मेलन को संबोधित करते राम किशोर त्रिपाठी। फोटो: एसएनई

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बैंक, बीमा, रक्षा, रेल आदि का निजीकरण किया जा

रहा है। संयोजक अशोक तिवारी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को

रहा है । जसस उनका पारपार मरण पापण के लिए मजबूर हो रहा है। साथ ही श्रम कानूनों में किये गये संशोधन से श्रमिकों की नौकरी का खतरा मंडरा रहा है। सम्मेलन में सहमति बनी की 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए नुक्कड़ सभाएं, पोस्टर और छोटे-छोटे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर राजीव निगम. रामप्रकाश राय. राजीव खरे, आरपी कनौजिया, असित कमा

न्युनतम वेतन से कम भुगतान किया जा

रहा है जिससे उनका परिवार भरण पोषण

#### संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का लटकता मिला शव

पुखरायां (एसएनबी)। कस्वे के मीरपुर बुद्धराजा (स्तर्गाचा) जिल्ला के नाजुर मोहल्ला निवासी रामआसरे शर्मा के पुत्र सुमित (32) की शादी गत 9 वर्ष पूर्व चित्रकटूट में किरन ज्योति के साथ हुई थी। बताते हैं कि करवाचौथ त्यौहार करने के बाद उनकी पत्नी चित्रकूट अपने मायके चली गई थी। रविवार की दोपहर सुमित अपने कमरे में ही था काफी देर तक जब वह कमरे से बाहर नहीं निकला तो उसकी मां रामवती व धाधी ने कमरा खुलवाने का प्रयास किया लेकिन जब कमरा नहीं खुला तो उन्होंने शोर मचाया। शोर ास के लोग दौड़े और दरवाज तोड़कर अंदर देखा तो सुमित का शव कमरे की छत पर लगे लोहे के कुंडे से दुपट्टे के सहारे लटकता मिला यह देख वहा हडकंप मच गया। पड़ोसियों द्वारा जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज अतुल गौतम ने शव नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की पत्नी व मां का रो रोक

# शहीदों की याद में पनकी नहर में किया दीपदान

कानपुर (एसएनबी)। कानपुर ग्रामीण उद्योग व्यापार मंडल तथा ग्रामीण महिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में दीपावली के पहले शहीदों की याद में पनकी नहर में दीपदान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पनकी मंदिर के महंत श्रीकृष्णदास ने दीप जलाकुर किया।

कैप्टन वेद प्रकाश त्रपटी तथा सूबेदार ओम सिंह भदौरिया ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। दीपदान में



लिया। प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री संदीप पांडेय ने कहा कि हमारे देश का सैनिक अगर दस को मार सकता है तो वह हंसते हंसते अपने

यहां गौरैया संरक्षण के प्रदेश अध्यक्ष मनीष पांडे, महिला अध्यक्ष श्रीमती मिथिलेश गुप्ता, उत्कर्ष गुप्ता, जितेन सिंह, राजेश दुवे, अंबुज मिश्रा थे।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक देशवासी को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए।

## कुत्ता टहलाने के विवाद में युवक का अंगूठा काटा

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कृत्ता टहलाने के दौरान हुए विवाद में कुछ भराकततत्वों ने शहर का माहौल विगाडने का प्रयास किया। अराजकतत्वों ने दूसरे वर्ग के युवक का धारदार हथियार से अंगूठा काट लिया और बीचन्वचाव करने आर्थे उसके परे परिवार को पीटा। इस जाव उसके पूर पारशार का पाटा। इस बीच जानकारी मिलने पर पीड़ित पक्ष के वर्ग के लोग भी सड़क पर उतर आये। दो पक्षों के आमनेन्सामने आने की सूचना पर बाबुपुरवा थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दबिश दी, लेकिन वह फरार मिले। पुलिस ने बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में देर रात

अराजकतत्वों ने परे परिवार पर किया हमला दो पक्षों का मामला होने से

क्षेत्र में तनाव फैला मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया, आरोपी फरार

घायलों को अस्पताल भेजा है। बाब्रुपुरवा निवासी देवेश त्रिपाठी

-रविवार रात को घर के बाहर पालतू कुत्ता टहला रहे थे। इसी दौरान एक बच्चा वहां बैठा देख उन्होंने उससे वहां से हटने को कहा। यह बात बच्चे के परिजनों सृिफयान, फुरकान और उसके जीजा को नागवार गुजरी और उन्होंने देवेश को पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर देवेश के भाई शैलेश त्रिपाठी और अभय तिवारी क माह राशरा त्रयाठा जार अनय तापारा वहां बीच-बचाव करने पहुंचे तो हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला करके शैलेश के हाथ का अंगूठा काट लिया, जबकि अभय के नाक और सिर पर वजनदार चीज से प्रहार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वर्ग विशेष के लोगों द्वारा पूरे परिवार को पीटते देख दूसरे पक्ष

के लोग भी सड़क पर आ गये और करते हुए भागने। इस पर दूसरे पक्ष ने उन्हें खदेड़ा तो उनकी तरफ से भी लोग बाहर खडेड़ा तो उनकी तरफ से भी लोग बाहर निकल आये। मामला गंभीर होता देख किसी ने पुलिस को सुनाने देशे। दो च्यो के आमनेसामने आने की सुनना पर मारी पुलिस कल मीके पर पहुँच गया। पुलिस ने आखीशित लोगों की शांत कराया और वायल सैलेन्द्र, अग्नय और देखेश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। बायुप्पता इंस्पेक्टर ने बताया कि आदीशियों की तलाश में प्रविश्व दी जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

# Frontier Springs Ltd.

(Largest Manufacturer of Springs for LHB Coaches)

Registered Office: KM 25/4, Kalpi Road, Rania, Kanpur Dehat-209304 CIN: 1 1711911P1981P1 C005212

nail: c.s@frontiersprings.co.in, Website: http://www.frontiersprings.co Tel. No. 05111-240212-13, 0512-2691207-08, Fax No. 05111-240214

		(Rs. in lakhs, except per share data)						
S. No.	Particulars	Current Quarter Ending	Year to Date Figures Ending	Corresponding 3 months Ended in the Previous Year				
		30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019 (Un-Audited)				
		(Un-Audited)	(Un-Audited)					
1	Total Income from Operations	2177.86	3858.17	2522.32				
2	Net Profit /(Loss) for the period before Tax	322.58	40.06	345.27				
3	Net Profit / (Loss) for the period after Tax *	228.20	3898.23	246.90				
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	231,47	397.67	251.08				
5	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	396.32	396.32	396.32				
6	Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance sheet of Previous year		- 8					
7	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each)							
	(a) Basic (Rs.)	5.88	10.10	6.37				
	(a) Diluted (Rs.)	5.88	10.10	6.37				
	* Not annualised.							

NOTES:

1. The above Un-Audited Financial results have been reviewed and recommended by Audit committee the Board of Directors at their meeting held on 07.11 200.

1. The Statutory Auditors have carried out limited review of the financial results for the quarter end 2000 as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements). 3. This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard amended, and prescribed under Section 133 of the Companies Act, read with the relevant rules issed. The Previous periods figures have been regrouped reclassified wherever considered necessary to period's classification of disclosure.

classification/ disclosure.
re is an extract of the detailed format of the Financial Results filed with the Stock Exch. 33 of the SEBI (Listing Oblig Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of ilable on the on the Stock Exchange website www.bseindia.com and also on the Com.

www.frontiersprings.co.in.

Pursuant to the lockdown imposed by the Central & State Government authorities to contain the spread of COVID-19
out break, the operations and financial results for the half year ended September 30,2020 have been impacted. The
operations gradually resumed in a phased manner with requisite pressuations. Sales for the month of April,2020 were
very less due to lockdown in the month of March and April 2020; the prolonged effect of which is also visible in the
above financial in sensits. We have considered relevant internal and external sources of information and its impact on the
recoverability of financial & non financial assets while preapration of these financial results. The impact of assessment recoverability of financial & non financial assets with properties of COVID-19 is however a continuing process given the uncertainty associated with its nature and duration to be different from that estimated as at the date of approval of these results. We will continue to monitor any

For and on behalf of the Board of Director Kundan Lal Bhatia

an cum Managing Dir DIN:00581799